

METAL COATINGS (INDIA) LTD.

Works II: 113, HSIIDC Indl. Estate, Sector - 59, Faridabad - 121 004 Phones: 09999972371, Fax: 0129-2307422



Date: 12th August, 2021

To, **BSE Limited**Phiroze Jeejeebhoy Towers

25th Floor, Dalal Street

Mumbai- 400 001

Sub.: Compliance under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Ref.: Scrip Code - 531810; Scrip Id - METALCO

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed copies of newspaper advertisements published on 12th August, 2021 in English and Hindi newspapers - The 'Financial Express' (English) and 'Jansatta' (Hindi) regarding 27th Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, 16th September, 2021 at 12.30 P.M. through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means and Notice of Book Closure.

You are requested to kindly take the above information on your records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Metal Coatings (India) Limited

Ayati Gupta

Company Secretary & Compliance Officer

Name of the Corporate Debtor

4. Corporate identity number / limited

5. Address of the registered office and

principal office (if any) of corporate

6. Insolvency commencement date of the

Eligibility for resolution applicants under

9. Norms of ineligibility applicable under

section 29A are available at:

11. Date of issue of provisional list of

prospective resolution applicants

12. Last date for submission of objections

13. Date of issue of final list of prospective

memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to

information memorandum and further

prospective resolution applicants

resolution plan, evaluation matrix

16 Last date for submission of resolution

resolution professional 18 Estimated date for submission of

Authority for approval 19 Name and registration number of the

resolution professional

with the Board

Professional

20 Name, Address and e-mail of the

21 Address and email to be used for

resolution professional, as registered

correspondence with the Resolution

22 Further Details are available at or with

23 Date of publication of Form G

https://insolvencyandbankruptcy.in/

reason and without any liability whatsoever.

Partner, AAA Insolvency Professionals LLP

convening the AGM ("the Notice").

Service Provider.

Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P-01577/2018-2019/12410

Pankaj Kumar Tibrewal

Resolution Professional

Date: 12/08/2021

Place: Kolkata

17 Manner of submitting resolution plans to

resolution plan to the Adjudicating

15 Manner of obtaining request for

10. Last date for receipt of expression of

section 25(2)(h) of the Code is available at:

liability identification number of corporate

incorporated / registered

corporate debtor

Ito provisional list

information

resolution applicants

14. Date of issue of information

Date of incorporation of corporate debtor | 12/02/1920

Date of invitation of expression of interest | 12/08/2021*

3. Authority under which corporate debtor is Registrar of Companies - Kolkata

FORM G

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

Incab Industries Limited

U27108WB1920PLC003641

9 HARE ST KOLKATA WB 700001

Interim Resolution Professional

27/08/2021*

06/09/2021*

11/09/2021*

21/09/2021

11/09/2021

21/10/2021*

To be decided

IP Registration No.

1. An application for extension of time of CIRP is filed with Adjudicating Authority on 2nd August

2. The Interested parties shall refer to the format for submission of the EOI and detailed terms

and conditions uploaded on the official website of AAA Insolvency Professionals LLP i.e.

3.All the EOIs received will be reviewed by the RP as well as the CoC and thereafter further

information /documents related to the process will be provided to the shortlisted parties. The

4. RP/CoC reserves the right to cancel or modify the process/application without assigning any

PUBLIC NOTICE

EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMITED

CIN: L99999MH1995PLC094641

Regd. Office: Edelweiss House, Off C.S.T. Road, Kalina, Mumbai – 400098

Tel: +91 22 4009 4400 | Fax: +91 22 4086 3610

E-mail: efsl.shareholders@edelweissfin.com Website: www.edelweissfin.com

NOTICE OF THE 26[™] ANNUAL GENERAL MEETING OF

EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LIMITED TO BE

HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/

OTHER AUDIO-VISUAL MEANS AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Edelweiss Financial Services Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, September 3, 2021 at 4 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 20/2020 dated May 5, 2020 and other applicable circulars, if any, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("the MCA Circulars"), the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder ("the Act") and the Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India from time to time ("the SEBI Circulars") [collectively referred to as "Relevant Circulars"] and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations"), to transact the business as set out in the Notice

In compliance with the Relevant Circulars, the Notice of the AGM and the Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto (the Annual Report 2020-21) have been sent on August 11, 2021, in electronic mode to Members of the Company whose e-mail address is registered with the Company / the Depository(ies). A copy of the Annual Report 2020-21 is also available on the website of the Company at www.edelweissfin.com, BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com and National

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations and the Relevant Circulars, as amended, the

Company has provided the facility to its Members to exercise their right to

vote on the Resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic

means. The process of the e-voting has been stated / explained in the Notice.

The facility of casting vote by a Member using remote e-voting system as well

as e-voting during the AGM will be provided by NSDL - the Electronic Voting

The details pursuant to the provisions of the Act, the Rules and the

1) The remote e-voting period begins on August 31, 2021 at 9 A.M. (IST)

and ends on September 2, 2021 at 5 P.M.(IST). During this period the

Members of the Company, holding shares either in physical form or in

dematerialised form, as on the cut-off date i.e. August 27, 2021 may cast

their vote electronically. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5 P.M.(IST) on September 2, 2021 and e-voting module

The Members of the Company, holding shares either in physical form or

whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of

Beneficial Owners maintained by the Depositories as on August 27, 2021 shall

A person who becomes Member of the Company after dispatch of the

Notice and holding shares as on the cut-off date may follow the

procedure of obtaining User ID and password as provided in the Notice.

Members are requested to carefully read the instructions given in the Notice

Mr. B. Narasimhan, failing him, Mr. Anivash Bagul, failing him, Mr. K.

Venkataraman, Practicing Company Secretaries, have been appointed as the

Scrutinizer(s) to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair

The dividend, as recommended by the Board, if approved at the AGM, will be

paid subject to deduction of tax at source, as may be applicable, between

a) whose names appear as Beneficial Owners as on August 28, 2021 in the

list of Beneficial Owners to be furnished by National Securities

Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited in

whose names appear as Members in the Register of Members of the

Company as on August 28, 2021 in respect of the equity shares held in

physical form, after giving effect to valid request(s) received for

Notice is also given under Section 91 of the Act and the Listing Regulations

that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company

will remain closed from August 28, 2021 to September 2,2021 (both days

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs)

for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the

download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.:

1800-1020-990 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, at

Edelweiss

Ideas create, values protect

Tarun Khurana

Company Secretary

For **Edelweiss Financial Services Limited**

September 7, 2021 to September 16, 2021, to those Members:

respect of the equity shares held in electronic form; and

transmission/transposition of equity shares."

only be eligible to cast their vote electronically or participate at the AGM.

Regulations for the information of the Members are given hereunder:

shall be disabled by NSDL for e-voting thereafter.

before casting their vote electronically.

and transparent manner.

inclusive).

e-mail id: evoting@nsdl.co.in.

Mumbai, August 12, 2021

Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. Facility of remote e-voting and e-voting during the AGM:

2021, so the dates are subject to extension granted by Adjudicating Authority.

RP/CoC shall have discretion to change the criteria for the EOI at any point of time.

http://www.insolvencyandbankruptcy.in

http://www.insolvencyandbankruptcy.in

07/08/2021 (CIRP reinitiated vide NCLAT order dated

wherein Pankaj Kumar Tibrewal as appointed as the

The Resolution professional will share the request for

Memorandum in the electronic form after verification of

KYC, capacity to invest, capability to manage and

eligibility under section 29A of IBC, 2016 and

To be decided by committee of creditors

Name: Mr. Pankai Kumar Tibrewal

Name: Mr. Pankaj Kumar Tibrewal

AAA Insolvency Professionals LLP.

Circular Road, Kolkata - 700019 incabindustries@aaainsolvency.com

http://www.insolvencyandbankruptcy.in

IBBI/IPA-001/IP-P-01577/2018-2019/12410

Chitra 3E, Duke Residency, 13, Chanditala Lane,

Near Chalia More, Tollygunge, Kolkata- 700040 Email id: tibrewalpankaj@yahoo.com

Mousumi Apartments, Ground Floor, 15B, Ballygunge

pre-qualification criteria, if any approved by COC.

resolution plan/ evaluation Matrix/ Information

04/06/2021 and NCLT Order dated 16/06/2021,

RELEVANT PARTICULARS

FINANCIAL EXPRESS

CSL FINANCE LIMITED Regd. Office: 410-412,18/12, 4th Floor, W.E.A., Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 Corp. office: 716-717, 7th floor, Tower B, World Trade Tower, Noida, Sector-16, U.P.-201301 (CIN: L74899DL1992PLC051462; Tel: 0120-4290654; Email: info@cslfinance.in; Web: www.cslfinance.in) EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021 Year-Ended Quarter ended **Particulars** 30-Jun-2021 | 31-Mar-2021 | 30-Jun-2020 | 31-Mar-2021 Audited Un-audited Un audited Audited 6185.96 otal income from operations Net Profit! (Loss) for the period (before tax. Exceptional and/ or 933.31 3,936.0 924.6 Extraordinary items) Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or 933.31 3,936.01 924.67 1175.69 Extraordinary items) 2,752.79 700.67 878.16 702.23 Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the 700.67 886.37 702.23 2.761.00 period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 616.92 616.92 616.92 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) 14.50 11.51 11.47 45.08 11.51 11.45 14.47 44.99 Diluted. The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2021 filed with BSE Limited under Regulation 33 (and other Regulations as applicable) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formation the above Financial Results is available on the Stock Exchange website - www.bseindia.com and on the company's website at www.csffnance.in. The above Un-audited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respecti meetings held on August 11, 2021

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian

"IMPORTANT"

Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

METAL COATINGS (INDIA) LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC063387 Registered Office: 912, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110019 E-mail ID: info@mcilindia.net; Website: www.mcil.net, Tel: +91-11-41808125 NFORMATION REGARDING 27TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY AND NOTICE OF BOOK CLOSURE

The 27th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Metal Coatings (India) Limited ("the Company") will be hel hrough Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Thursday, the 16th September, 2021 at 12:3t o.m., Indian Standard Time in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules mac hereunder, read with Circular No.14/2020 dated 08^a April, 2020, Circular No.17/2020 dated 13^a April, 2020 , Circular No 20/2020 dated 05th May, 2020 and Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 and other applicable circulars issued b the Ministry of Corporate Affairs, and Securities and Exchange Board of India, (hereinafter collectively referred to as "Relev Circulars"), to transact the business set out in the Notice of AGM. n compliance with the relevant circulars, the electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for th

ïnancial year 2020-21, will be sent only by electronic mode to all the members of the Company whose email address ar egistered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company! website at www.mcil.net, Stock Exchange's website at www.bseindia.com and on the website of Company's Registrars and Fransfer Agents, Link Intime India Private Limited ("LIIPL") at https://instavote.linkintime.co.in Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses, are requested to update the

email addresses by writing to the Company at cs@mcilindia.net along with the copy of the signed request letter mentioning his/ her folio number along-with self attested copy of the PAN card and any one document i.e. Driving License, Electio Identity Card. Passport or AADHAAR Card. Members holding shares in dematerialised mode, who have not registere updated their email addresses, are requested to register/ update their email addresses with the Depository Participants wit whom they maintain their demat accounts "Members can cast their vote(s) on the business as set out in the notice of the AGM through electronic means ("e-Voting The Company has engaged LIIPL to provide to the members, the facility of remote e-Voting and the facility of joining

attending AGM through VC/OAVM and e-Voting at the AGM. The process and manner of remote e-Voting, joining/ attending

the AGM through VC/OAVM and e-Voting at AGM, for members holding shares in demat form or physical form and for nembers who have not registered their email address, has been provided in the Notice of AGM. The members attendin the AGM through VC/OAVM, who have not cast their vote through remote e-Voting, shall be allowed to vote throug NOTICE OF BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed fror

Friday, 10th September, 2021 to Thursday, 16th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM. For Metal Coatings (India) Limited

Place: New Delhi Dated: 11th August, 2021 Company Secretary & Compliance Office

Consolidated

(Rs. In Lakhs)

Place : Noida

Date: 11.08.2021

CEE COSMA SOPE LTD. Regd. Office: PADAMDEEP, 5th & 6th Floor, G-10/8, Sanjay Place , Agra-282002 Tel.: 0562-2527330/31/32, Fax: 0562-2527329, E-mail:pccosmalisting@doctorsoap.com CIN: L24241UP1986PLC008344, Website: www.doctorsoap.com

The above Un-audited Financial Results have been prepared in accordance with the principles laid down in The Indian Accounting Standards.

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 30TH JUNE 2021

SI.	PARTICULARS		Year Ended		
No.		30.06.2021 (UNAUDITED)	31.03.2021 (AUDITED)	30.06.2020 (UNAUDITED)	31.03.2021 (AUDITED)
	Total language from Consolinate	2296.03	-	The second secon	-
	Total Income from Operations	10.000000000000000000000000000000000000	1933.59	2182.61	8283.87
8	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	104.64	81.03	207.43	644.18
MD 8728	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	104.64	81.03	207.43	644.18
	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	78.20	59.66	149.64	476.63
	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	78.20	59.66	149.64	476.63
	Paid-up Equity Share Capital (face value of Rs.10/-each) Earning per share (Quarterly not annualised)	264.63	264.63	264.63	264.63
2	Basic (Rs.)	3.00	2.30	5.70	18.00
	Diluted (Rs.)	3.00	2.30	5.70	18.00

Notes: (1) The above is an extract of the detailed format of financial results for Quarter ended June 30, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly results are available on the websites of Stock Exchange (www.bseindia.com) and the Company's vebsite (www.doctorsoap.com). (2) The above Results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their Meeting held on August 11, 2021. (3) An Independent Auditors Review Report as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed on detailed Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021 filed with the Stock Exchanges. (4) Figures for the previous period have been regrouped wherever necessary, to conform to the current period's classification.

> For & on behalf of the Board PEE CEE COSMA SOPE LIMITED MAYANK JAIN (Executive Chairman)

PLACE : AGRA A TRUSTED NAME FOR MORE THAN TO YEARS GIVING CONTINUOUSLY TRUSTWORTHY RESULTS



By order of the Board

(Managing Directo DIN: 0004507

Rohit Gupta



ρΫρ

PICTUREHOUSE MEDIA LIMITED

Reg Off: D. No. 2, 9th Floor, KRM Centre, Harrington Road, Chetpet, Chennai-600031; Web: www.pvpcinema.com; Email: ir.telephoto@pvpglobal.com; Tel: 044 30285570 CIN:L92191TN2000PLC044077

"EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE and CONSOLIDATED FINANCIAL **RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE. 2021**

(as per format of Newspaper Publishing Purpose of Regulation 33 of SEBI Listing Regulations, 2015) Rs in lacs

		STANDALONE			СО	ED		
SI.		Quarte	r ended	Year ended	Quarte	Quarter ended		
No.	PARTICULARS		30.06.2020 Unaudited	31.03.2021 Audited		30.06.2020 Unaudited	31.03.2021 Audited	
1	Total income from operations (net)	0.83	8.34	138.79	0.86	8.34	138.79	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional items)	(24.08)	(239.54)	(85.26)	(1,308.00)	(1,366.67)	(4,803.47)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(24.08)	(239.54)	(85.26)	(1,308.00)	(1,366.67)	(4,803.47)	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(24.08)	(239.54)	(85.26)	(1,308.00)	(1,366.67)	(4,803.47)	
5	Total comprehensive Income for the period (Comprising profit / (loss) for the period (after tax) and their comprehensive income (after tax))	(24.08)	(239.54)	(83.96)	(1,308.00)	(1,366.67)	(4,800.84)	
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	
7	Earnings Per Share (not annualised) of Rs. 10 each/-							
	Basic	(0.05)	(0.46)	(0.16)	(2.50)	(2.62)	(9.19)	
	Diluted	(0.05)	(0.46)	(0.16)	(2.50)	(2.62)	(9.19)	

NOTES:

- The above results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 11th August, 2021 and approved by the Board of Directors at its meeting held on even date. The above guarterly results have also been reviewed by the statutory auditors.
- The above is an extract of the detailed format of Standalone financial results for the guarter ended 30th June, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Exchange websites www.bseindia.com and on the company's website www.pvpcinema.com.

For and on behalf of the Board of Directors Sd/-

Prasad V. Potluri Place: Hyderabad Date : August 11, 2021 Managing Director

PDPL

PARENTERAL DRUGS (INDIA) LIMITED CIN: L24100MH1983PLC126481 Regd. Office: 340, Laxmi Plaza, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (W), Mumbai

Website: www.pdindia.com ; E-mail: pdpl@pdindia.com ;Tel: (022) 61725900-01; Fax: (022) 26333763 Extract of Consolidated Un Audited Financial Results for the I st Quarter Ended on

	30th June,2021						
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended Quarter Ended 30-06-2021 31-03-2021 30-06-2020 (Unaudited) (Audited) (Unaudited)			Year Ended 31-03-2021 (Audited)		
1	Total Income From Operation	294.14	259.65	293.07	1223.13		
2	Net Profit / (Loss) (before taxes and Extraordinary items)	(4105.27)	(3336.01)	(4000.36)	(15447.19)		
3	Net Profit / (Loss) before taxes (after Extraordinary items)	(4,105,27)	(3,336.01)	(4,000.36)	(15,447,19)		
4	Net Profit / (Loss) after taxes (after Extraordinary items)	(3,203.66)	(2,484.54)	(3,221.85)	(12,171.29)		
5	Total comprehensive Income for the period (comprising profit (loss) and other comprehensive income for the period after tax)	(3,199.93)	(2,452.85)	(3,229.68)	(12,157.10)		
6	Paid-up equity share capital (Face Value Rs.10/- each)	2981.63	2981.63	2981.63	2981.63		
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year)		3		(78474.58)		
8	Earnings per share (for discontinued & continueing operation):				F 100 Get		
	(a) Basic (In Rs)	(10.74)	(8.33)	(10.81)	(40.82)		

(b) Diluted (In Rs) NOTES:

The above un audited consolidated financial results for the guarter ended 30 th June 2021 have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable beginning April 1, 2017. Additional information on standalone financial results are given below:

(10.74)

(8.33)

(10.81)

(40.82)

(Rs in Lakh) Quarter Ended Quarter Ended Quarter Ended Year Ended Particulars 31-03-2021 30-06-2020 31-03-2021 30-06-2021 (Audited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) Total Income from operations (net) 294.14 259.65 293.07 1,223.13 Profit/Loss before tax (4,105.27)(3,335.86)(4.000.36)(15,447.04)Profit/Loss after tax (3,199.93)(2,452.70)(3,229.68)(12, 156.95)

The above un audited results were reviewed by statutory auditors and audit committee of the company and approved by Board of Directors in their meeting held on 10-08-2021

The figures for the quarter ended March 31, 2021 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the unaudited published figures upto nine months of the relevant financial year which were subject to limited review by the Statutory Auditor of the Company.

The previous period figures have been regrouped/rearranged wherever found necessary. The above is an extract of the detailed format of Consolidated and standalone Financial Results for the Quarter ended 30 th June, 2021

filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations,

The full format of the Consolidated and standalone Financial Results for the Quarter ended 30 th June, 2021 are available on the website of the company i.e. www.pdindia.com and on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com). For and on behalf of Board of Directors

Vinod Kumar Gupta Managing Director DIN 00039145

Regd. Office: 820, ANTRIKSHA BHAWAN, K.G.MARG NEW DELHI DL 110001 IN CIN: L74899DL1992PLC050142

RUDRABHISHEK ENTERPRISES LIMITED

Website: www.repl.global, Email: secretarial@replurbanplanners.com STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2021

Sr.	The same and	The second secon		Section of the sectio	24.000.000	VV-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-		
	Particulars	Quarte	Ended	Year Ended	Quarter Ended		Year Ended	
No.		30.06.2021 (Unaudited)	30.06.2020 (Management Certified)	31.03.2021 (Audited)	30.06,2021 (Unaudited)	30.06.2020 (Management Certified)	31.03.2021 (Audited)	
1	Total Income from operations	1,482.13	663.96	7,113.91	1,546.47	677.99	7,428.33	
2	Net Profit from before Tax	361.34	90.80	1,870.57	368.66	60.69	1,886.16	
3	Net Profit for the period after tax (after Extraordinary items)	264.60	61.35	1,375.64	255.67	13.56	1,329.98	
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	269.03	59.38	1,393,38	260.39	11.59	1,389.76	
5	Equity paidup share capital	1,734.25	1,734.25	1,734.25	1,734.25	1,734.25	1,734.25	
6	Reserves excluding Revaluation Reserves as per Balance Sheet of previous accounting year			6,319.23			6,270.27	
7	Earnings per share (Not annualised):							
	Basic (₹)	1.53	0.35	7.93	1.48	0.09	7.72	
	Diluted (₹)	1.53	0.35	7.93	1.48	0.09	7.72	

- The above unaudited financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 11th August 2021. The financial results for the quarter ended June 30th 2021 have been Limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company.
- The Standalone and Consolidated quarterly financial statement includes the results for quarter ended 31st March 2021 being balancing figures between audited figures in respect of full financial year and the unaudited year to date figures upto third quarter for period ended 31st December 2020. The Standalone & Consolidated figures for corresponding previous guarter ended 30th June 2020 are management certified and have not been limited reviewed.
- The above is an extract of the detailed format of unaudited standalone and consolodated Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited standalone and consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and on the company website www.repl.global For Rudrabhishek Enterprises Limited

Pradeep Misra Place : New Delhi Chairman Date: 11.08.2021 DIN: 01386739

Bilcare^{*} Research

Profit / (Loss) Before Tax

Profit / (Loss) After Tax

Bilcare Limited

Regd. Office: 1028, Shiroli, Pune 410505.Tel: +91 2135 647300 Fax: +91 2135 224068 Email: investor@bilcare.com Website: www.bilcare.com CIN: L28939PN1987PLC043953

Quarter

Quarter

Extract of Consolidated Financial Results (Unaudited) for the Quarter Ended June 30, 2021 (₹ in Crores, except per share data)

Sr.		Ended	Ended	Ended	Ended
No.	Particulars	30 June 2021	31 March 2021	30 June 2020	31 March 2021
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period	181.69	186.52	140.37	641.11
	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(12.85)	(11.42)	(16.16)	(51.76)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(12.85)	15.38	(16.16)	(24.96)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(12.89)	15.31	(15.21)	(11.17)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income]	(12.31)	15.59	(15.07)	(11,97)
6.	Equity Share Capital	23.55	23.55	23.55	23.55
7.	Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (of ₹ 10/- each)	9019958555	VS-9250230	\$55.945.0500 \$45.045.05	200000000000000000000000000000000000000
	a. Basic	(6.49)	4.97	(6.94)	(8.95)
	b. Diluted	(6.49)	4.97	(6.94)	(8.95)
Key	Standalone Financial Information	0 0		3	(₹ in Crores)
Sr.		Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
No.	Particulars	30 June 2021	31 March 2021	30 June 2020	31 March 2021
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	87.44	90.03	73.82	318.39

Notes: The above is an extract of the detailed format of the Quarter Ended Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Ended Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website - www.bseindia.com and on the Company's website-www.bilcare.com.

(20.19)

(18.62)

33.92

35.57

(17.32)

(15.76)

(17.62)

1.77

2.17

Previous periods' figures have been re-grouped / re-classified wherever necessary. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their

respective meetings held on August 11, 2021.

For Bilcare Limited

Place : Pune Mohan H. Bhandari

Date : August 11, 2021

Managing Director

WELSPUN INVESTMENTS AND COMMERCIALS LIMITED CIN - L52100GJ2008PLC055195 www.welspuninvestments.com Regstd. Office: Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, Dist. Kutch, Gujarat 370110 Corporate Office: Welspun House, 7th Floor, Kamala City, Senapati Bapat Marg,

Lower Parel (West), Mumbai – 400013. EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2021 (₹ in Lakhs) Quarter Ended Year Ended

30/06/2021 31/03/2021 30/06/2020 31/03/2021 **Particulars** (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 3.96 90.10 Total Income from Operations (net) 136.50 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and Exceptional items) -4.09 106.05 -2.31 86.23 3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items) -2.31 -4.09 86.23 106.05 4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items) -3.70 -1.91 64.91 79.20 Total Comprehensive income for the period [Comprising profit / (Loss)] for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 1,226.69 2,143.75 369.38 7,719.46 365.45 6 Equity share capital (Face Value Rs. 10 each) 365.45 365.45 365.45 Reserves (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year) 13,420.90 13,420.90 8 Earnings per share of Rs 10 each (for continuing operations)

Basic and diluted EPS (Rs.)

Notes: 1) The unaudited financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under section 133 of The Companies Act, 2013 ("The Act") read with the relevant Rules issued thereunder and in terms of regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including relevant circulars issued

by SEBI from time to time. 2) The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on August 11, 2021 in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015. The Statutory Auditors of the Company have carried out a limited review of unaudited financial results and have issued an unqualified review opinion on these results. The outbreak of Coronavirus (COVID - 19) pandemic globally and in India is causing significant disturbance and slowdown of economic activity. The Company has evaluated impact of this pandemic on its business operations and based on its review and

current indicators of future economic conditions, there is no significant impact on its financial results. However, the impact of the global health pandemic may be different from that estimated as at the date of approval of these financial results and the Company will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.

The figures for the previous three months ended 31 March 2021 are arrived at as difference between audited figure in respect of the full financial year and published unaudited figures upto nine months of relevant financial year, which were only reviewed and were

5) The Company is engaged in investment activity, which is primary segment and there are no other reportable segments as per Ind AS

6) Previous period's figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to correspond with those of current period. 7) The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the

For Welspun Investments and Commercials Limited

(Atul Desai) Director

financialexp.epas.in

Date: 10-08 2021

Place: Indore

New Delhi

Date: 11.08.2021

not subject to audit by the statutory auditors.

108 - 'Operating Segments' as quantitative thresholds of revenue/profit/assets are not met.

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results is available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and the Company's websites (www.welspuninvestments.com)

DIN - 00019443

Place: Mumbai

मेटल कोटिंग्स (इंडिया) लिमिटेड

CIN:L74899DL1994PLC063387 पंजीकृत कार्यालयः 912, हेमकुन्ट चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 Website:www.mcil.net, Email: info@mcilindia.net Tel: 011-41808125

कम्पनी की 27वीं वार्षिक आम सभा तथा पुस्तक बंद होने के विषय में सुचना मेटल कोटिंग्स (इंडिया) लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 27वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभृति और विनियम बोर्ड द्वारा सर्व्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020, सर्क्युल्यर नं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 तथा सर्क्युलर नं. 02/2021 तिथि 13 जनवरी, 2021 तथा लागू होने वाले अन्य सर्क्युलर्स (यहां के बाद सामृहिक रूप से संबंधित सर्क्युलर्स वर्णित) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागु होने वाले सभी प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुपालन में विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विज्ञअल माध्यमों ओएवीएम'') द्वारा गुरुवार, 16 सितम्बर, 2021 को 12.30 बजे अप. भारतीय मानक समय में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना

संबंधित सर्क्युलर्स के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2020-21 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से केवल उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास दर्ज हैं। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.mcil.net. स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट: www.bseindia.com तथा कम्पनी के रजिस्टार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट्स लिंक इन्टाइग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (''एलआईपीएल'') की वेबसाईट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होंगे। भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, से आग्रह है कि अपने फोलियों नं. का उल्लेख करते हुए अनरोध पत्र के साथ पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित पति तथा किसी एक दस्तावेजों जैसे डाइविंग लाइसैन्स, मतदाता पहचान पत्र, पास्पोत अथवा आधार कार्ड की प्रति के साथ cs@mcilindia.net पर कम्पनी को लिखकर अपना ईमेल पता अद्यतन कराऐं। डिमैट पद्धत्ति में शेयर

एजीएम में शामिल/उपस्थित होने तथा रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी ने एलआईआईपीएल की नियुक्ति की है। रिमोर्ट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल/उपस्थित होने तथा एजीएम में ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा तरीका ऐसे सदस्यों के लिये जो डिमैट पद्धत्ति में या भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करते हों जिन्होंने अपने ईमेल पते पर पंजीकृत नहीं कराये हैं, एजीएम की

सचना में दी गई है। वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किये हों. को

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शुक्रवार, 10 सितम्बर, 2021 से गुरुवार, 16 सितम्बर 2021 (दोनों दिवस सहित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे। मेटल कोटिंग्स (इंडिया) लिमिटेड के लिये

स्थानः नई दिल्ली अयाति गुप्ता तिथि: 11 अगस्त, 2021 कम्पनी सचिव एवं अनपालन अधिकारी

CORAL NEWSPRINTS LTD.

Regd. Office: A-138, 1st Floor, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092 CIN NO: L22219DL1992PLC048398, E-mail: cnpl_5000@rediffmail.com Website: www.coralnewsprintslimited.com,Tel.: 22010998 Annexure XI

Abstract of Unaudited Financial Result (Standalone) for the Quarter & Year ended on 30.06.2021 (Rs. in lacs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2021	Year to date Figures 31.03.2021	Quarter ended 30.06.2020
1. 2.	Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) from ordinary	128.97	575.43	76.16
3.	activities after tax Net Profit / (Loss) for the period	(64.11)	(185.75)	(54.60)
4.	after tax (after Extraordinary items) Equity Share Capital	(64.11) 505.27	(185.75) 505.27	(54.60) 505.27
5.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance			
6.	Sheet of previous year) Earnings Per Share (before	(1,248.91)	(1,184.80)	(1,033.49)
	extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic : Diluted :	(1.27) (1.27)	(3.68) (3.68)	(1.08) (1.08)
7.	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)	(1.21)	(0.00)	(1.00)
	Basic : Diluted :	(1.27) (1.27)	(3.68) (3.68)	(1.08) (1.08)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and on Company's website at www.coralnewsprintslimited.com By Order of the Board

> Coral Newsprints Ltd. (Pushpendra P.S.Chauhan)

Place : Delhi Whole Time Director & CEO, (DIN No: 01871760) Dated: 11.08.2021

एनजीटी के आदेश को तमिलनाडु ने दी चुनौती

नई दिल्ली, 11 अगस्त (ब्यूरो)।

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आदेश को रद्द किए मेकेदातु बांध को लेकर राष्ट्रीय जाने की तमिलनाड़ ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से फरियाद की है। हरित न्यायाधिकरण के आदेश को

कीमिया बायोसाइंसेस लिमिटेड पंजी. कार्यालयः ग्राम भोण्डसी. तहसील सोहना, जिला गडगाँव, हरियाणा-122102

ई-मेलः compliance.kimia@gmail.com, वेबः www.kimiabiosciences.com CIN: L24239HR1993PLC032120, टेली: 011-47063600, फैक्स: 011-47063601/02 शेयर प्रमाणपत्र गुम होने की सूचना

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा जारी की गई निम्न शेयर प्रमाणपत्रों के गुम होने अथवा चोरी हो जाने की सुचना मिल है तथा उसके पंजीकृत धारक ने डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कम्पनी में आवेदन किया है। फोलियो नं. शेयरधारक का नाम शेयरों की सं. 2981 1589301 से 1589400

शेयर प्रमाणपत्र के संदर्भ में यदि किसी व्यक्ति का कोई दावा हो. वे अपने दावे इस सचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर 974 अग्रवाल मिलेनियम टावर-II, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 के पते पर उसके कॉर्पोरेट कार्यालय में कम्पनी के पास दाखिल करें जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा तथा कम्पनी डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। कीमिया बायोसाइंसेस लि. के लिये

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 11.8.2021

समीर गोयल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



मयूर विहार, फेज–। एक्सटेंशन शाखा

कब्जा सूचना

प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) (अचल सम्पत्ति हेत्)

जबकि, अधोहरताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन युनियन बैंक ऑफ इंडिया, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार और गारंटर्स (1) मैसर्स टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर, 682, नीति खंड-।।।, इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201010, यू.पी. (2) श्री प्रदीप गोयल, 682, नीति खंड-।।।, इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201010, यू.पी. (3) श्रीमती मनीषा गोयल, 682, नीति खंड–।।।, इंदिरापुरम, गाजियाबाद–201010, यू.पी., को एक मांग सूचना दिनांक 12.05.2021 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 80,18,197/- (रु. अस्सी लाख अट्टारह हजार एक सौ सत्तान्वे मात्र) और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भूगतान करने को कहा गया था

उधारकर्ता और गारंटर्स उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता और गारंटर्स तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक 10.08.2021 को ले लिया

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा मयूर विहार, फेज-। एक्सटेंशन शाखा के प्रभार वास्ते उल्लेखित राशि रू 80,18,197/- (रु. अस्सी लाख अट्ठारह हजार एक सौ सत्तान्वे मात्र) और भविष्य का ब्याज, लागत और खर्चें इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अचल / बंधक संपत्ति(यों) का विवरण

खाली रिहायशी प्लॉट नं. 105, इन्द्रप्रस्थ सहकारी आवास समिति फेज—।।, खसरा नं. 896, 890, 901, 910 में से, रेवेन्यू रोशनपुर दौराली, परंगना दौराला, तहसील संरधाना रुड़की रोड मेरठ बाईपास, मेरठ, यू.पी. में स्थित

दिनांक : 10,08,2021, स्थान : दिल्ली प्राधिकत अधिकारी, युनियन बैंक ऑफ इंडिया

New Delhi Television Limited

CIN: L92111DL1988PLC033099 Regd. Off.: B 50-A, 2nd Floor, Archana Complex, Greater Kailash - I, New Delhi-110048 Phone: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 | Fax: 2923 1740 E-mail:corporate@ndtv.com | Website: www.ndtv.com



Statement of Standalone and Consolidated unaudited financial results for the Quarter Ended 30 June 2021

(Rs. in Lakhs except per share data.)

	Standalone			Consolidated			
Particulars	3 months ended (30/06/2021)	Previous year ended (31/03/2021)	Corresponding 3 months ended (30/06/2020) in the previous year	3 months ended (30/06/2021)	Previous year ended (31/03/2021)	Corresponding 3 months ended (30/06/2020) in the previous year	
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	
Total income from operations (net)	5,195	19,733	4,788	8,502	35,763	7,273	
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	1,390	3,799	442	1,753	8,630	867	
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and extraordinary items)	1,390	3,799	442	1,753	8,630	867	
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and extraordinary items)	1,390	3,799	442	1,599	7,090	689	
Total Comprehensive Income for the period	1,387	3,786	388	1,598	7,093	622	
Equity share capital	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579	
Other equity	19	25,962		Tie Tie	12,588		
Earning Per Share (of Rs. 4/- each) (for continuing and discontinuing operations) Basic:	2.16	5.89	0.69	2.48	11.00	1.07	
Diluted:	2.16	5.89	0.69	2.48	11.00	1.07	

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange

website (www.nseindia.com and www.bseindia.com), and on the Company's website, www.ndtv.com.

For New Delhi Television Limited Place: New Delhi **Prannoy Roy** Date: 10 August, 2021 **Executive Co-Chairperson**

पंजाब नैश्ननल बैंक 💽 punjab national bank सस्त्र डिवीजन, रिकवरी सेन्ट्रल हरिद्वार, E-mail: cs8238@pnb.co.in

भारवा / ऋणी

कब्जा सुचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

एतदद्वारा, अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी, **पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी) में प्राप्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए व प्रतिमृति हित (प्रवर्त्तन) नियम 2002 के साथ पठित धारा 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निम्न वर्णित ऋणी / यों / बंधककर्ता / ओं को मांग सचना पत्र निम्नवर्णित तिथियों को भेजे गए कि वे उक्त नोटिस/सों की प्राप्ति/नोटिस जारी करने की तिथि के 60 दिनों के भीतर सम्बन्धित मांग सूचना पत्र में दी गयी राशि का भुगतान कर दें ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं द्वारा ऋण राशि का भुगतान न कर पाने के कारण सभी ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सपठित नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित सम्पत्तियों का सांकेतिक / भौतिक कब्जा निम्नवर्णित तिथियों को ले लिया है। ऋणी / यों / बंधककर्ता / ओं को विशिष्टित: और सर्वसाधारण को सामान्यत: सर्तक (सावधान) किया जाता है कि यह निम्नलिखित सम्पत्तियों के साथ कोई लेन—देन न करें। जमान्ती आस्ति को Redeem कराने हेतु उपलब्ध समय सीमा के सम्बन्ध में ऋणी / यों / बंधककर्ता / ओं / गारन्टीकर्ता / ओं का ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रायधान की आकर्षित किया जाता है। सम्पत्तियों से किया गया किसी भी प्रकार का लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक के ऋण भार के निम्नलिखित वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज व अन्य खर्चे के अधीन होगा।

त्रग्ध सं0		बंधक सम्पत्ति का विवरण
	शाखाः अहमदपुर, रानीपुर मोड, हरिद्वार ऋणीः मैसर्स शेप इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट, लिमिटेड, पंजीकृत ऑफिस-प्लॉट नं0 17, सेक्टर-2, सिडकुल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249403, डायरेक्टर: 1. श्री सीरभ जैन पुत्र श्री सुधीर कुमार जैन, शेखर कुंज, रेलवे रोड, पोस्ट-ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249407, 2. श्री सुधीर कुमार जैन पुत्र श्री शेखर चन्द्र जैन, शेखर कुंज रेलवे रोड, पोस्ट- ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249407, 3. श्री शिवम् अग्रवाल, मकान नं0 61/62, मीहल्ला मेहतन ज्वालापुर, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249407, गारन्टर: 1. श्री सौरभ जैन पुत्र श्री शेखर चन्द्र जैन, शेखर कुंज, रेलवे रोड, पोस्ट- ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249407, 2. श्री सुधीर कुमार जैन पुत्र श्री शेखर चन्द्र जैन, शेखर कुंज, रेलवे रोड, पोस्ट- ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249407, 3. श्रीमती पारूल जैन पत्नी श्री सौरभ जैन, शेखर कुंज रेलवे रोड, पोस्ट- ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249407, रोह्नम् अग्रवाल, मकान नं0 61/62, मीहल्ला- मेहतन ज्वालापुर, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249407	उत्तरः मेल रोड, दक्षिणः प्लॉट नं0 सी-1, मैसर्स शेप इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड। सम्पत्ति नं0 2. एक सम्पत्ति, कुल भूमि माप 1980 वर्ग मीटर, मैसर्स शेप इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं0 17, स्थित सेक्टर-2, सिडकुल, आईआईई, औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार, तहसील एवं जिला- हरिद्वार, सीमाएँ:- पूर्वः प्लॉट नं0 2, पश्चिमः प्लॉट नं0 24 एम, उत्तरः प्लॉट नं0 16, दक्षिणः प्लॉट नं0 18, सम्पत्ति स्वामी मैसर्स शेप इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड। सम्पत्ति नं0 3. एक लीजहोल्ड निर्मित आवासीय यूनिट नं0 503, माप क्षेत्रफल 222.96 वर्ग मीटर, पांचवां तल, ब्लॉक-क्रेमा, स्थित ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, अब महागुन मॉफियस, निर्मित प्लॉट नं0 ई-4, सेक्टर-50, नोएडा, गीतमबुद्ध नगर, उ०प्र0। सम्पत्ति स्वामी श्रीमती पारुल जैन पत्नी श्री सौरम जैन एवं श्री सौरम जैन पुत्र श्री सुधीर कुमार जैन।
2.	शाखाः अहमदपुर, रानीपुर मोड, हरिद्वार ऋणीः मैससं टेक्सप्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत ऑफिसः	सम्पत्ति नं0 1. एक सम्पत्ति माप 2234 वर्ग मीटर स्थित सेक्टर-2, भेल औद्योगिक क्षेत्र एस्टेट, रानीपुर हरिद्वार परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला-

मेल अधीनस्थ, मेल, रानीपुर हरिद्वार- 249403, डायरेक्टर-श्री हरिद्वार। सीमाएँ:- पूर्वः टेक्सप्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सम्पत्ति, पश्चिम जिनेश चन्द्र जैन पुत्र रोशन लाल जैन, श्री श्रेयांश जैन पुत्र जिनेश चन्द्र जैन, श्रीमती सुनीता जैन पत्नी जिनेश चन्द्र जैन, श्रीमती चारू जैन पत्नी श्री श्रेयांश जैन, **डायरेक्टरः 1**. श्री जिनेश चन्द्र जैन पुत्र टेक्सप्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। रोशन लाल जैन, अहिंसा सदन मित्र वाटिका, रानीपुर मोड़, हरिद्वार, सम्पत्ति नं0 2. एक सम्पत्ति माप 4525 वर्ग मीटर स्थित सेक्टर-2, भेल

उत्तरखण्ड-249403, 2, श्री श्रेयांश जैन पुत्र जिनेश चन्द्र जैन, औद्योगिक क्षेत्र एस्टेट, रानीपुर हरिद्वार परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला-अहिंसा सदन मित्र वाटिका, रानीपुर मोड़, हरिद्वार, उत्तरखण्ड- हरिद्वार। **सीमाएँ**:-पूर्वः रास्ता, पश्चिमः मैसर्स टेक्सप्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 249403, 3. श्रीमती सुनीता जैन पत्नी जिनेश चन्द्र जैन, अहिंसा की सम्पत्ति, उत्तरः हू ऑल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फिर रानीपुर आईटीआई, सदन मित्र वाटिका, रानीपुर मोड़, हरिद्वार, उत्तरखण्ड- 249403, दक्षिणः बस्ती फिर न्यू शास्त्री नगर ज्वालापुर। सम्पत्ति स्वामी टेक्सप्लास इंडिया श्रीमती चारू जैन पत्नी श्री श्रेयांश जैन अहिंसा सदन मित्र श्रीमती चारू जन पत्नी श्री श्रयश जन आहसा सदन मित्र वाटिका, रानीपुर मोड़, हरिद्वार, उत्तरखण्ड- 249403, कॉपोरेट बांदरी: 1 केम्प्रस टेक्सप्लाम लाडफस्टाइल इंडिया पारवेट लिक्टिड वांदरी: 1 केम्प्रस टेक्सप्लाम लाडफस्टाइल इंडिया पारवेट लिक्टिड
 सम्पत्ति गं0 3. सम्पत्ति कुल भूमि माप 1.103 हैक्टेयर, खसरा गं0 76, **गांरटी: 1.** मैसर्स टैक्सप्लास लाइफस्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटड, पंजीकृत ऑफिस एम-37, ग्रेटर कैलाश भाग-1 मार्किट, नई दिल्ली- खाता नं0 115, स्थित ग्राम- भरपूर, जदीद मुस्तकम, परगना एवं तहसील-110048, डायेक्टर-श्री श्रेयांश जैन पुत्र जिनेश चन्द्र जैन, श्री धर्मवीर रुड़की, जिला- हरिद्वार (नगर निगम रुड़की की सीमा से बाहर), **सीमाएँ:**-कुमार। 2.मैसर्स टैक्सप्लास कम्पोजिट इंडिया प्राइवेट लिमिटड, पूर्व: अन्य की मूमि, पश्चिम: कॉयर कॉलेज की सम्पत्ति, उत्तर: अन्य की भूमि, र्पेजीकृत ऑफिसः प्लॉट नं0 1, औद्योगिक एस्टेट, ग्राम- बहादुरपुर दक्षिणः चकरोड। सम्पत्ति स्वामी श्री जिनेश चन्द्र जैन पुत्र रोशन लाल जैन। सैनी अहतमाल, तहसील- रूड़की, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड-

247667, डायेक्टर- श्री जिनेश चन्द्र जैन पुत्र रोशन लाल जैन, श्री श्रेयांश जैन पुत्र जिनेश चन्द्र जैन, श्रीमती सुनीता जैन पत्नी जिनेश चन्द जैन, श्री नवनीत जैन। **गारन्टर: 1.** श्री जिनेश चन्द्र जैन पुत्र रोशन लाल जैन, ऑंहेंसा सदन मित्र वाटिका, रानीपुर मोड़, हरिद्वार, उत्तरखण्ड - 249403, 2. श्री श्रेयांश जैन पुत्र जिनेश चन्द्र जैन, अहिंसा सदन मित्र वाटिका, रानीपुर मोड़, हरिद्वार, उत्तरखण्ड- 249403, 3. श्रीमती पुनीता जैन पत्नी जिनेश चन्द्र जैन, अहिंसा सदन मित्र वाटिका, रानीपुर मोड़, हरिद्वार, उत्तरखण्ड- 249403, 4. श्रीमती चारू जैन पत्नी श्रेयांश जैन, अहिंसा सदन मित्र वाटिका, रानीपुर मोड़, हरिद्वार, उत्तरखण्ड-249403

दिनांकः 11.08.2021

स्थान - हरिद्वार

रास्ता, उत्तरः लाडरून इंडस्ट्री, दक्षिणः अन्य की सम्पत्ति। सम्पत्ति स्वामी मैसर्स

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 11 अगस्त।

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल मंगलवार को हुई घटना पर क्षोभ व्यक्त करते हुए बुधवार को भावुक हो कर कहा कि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की पवित्रता भंग की गई।

उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति

ने कल की घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि वह सो नहीं सके क्योंकि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की पवित्रता भंग की गई। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर होता है और इसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने देना चाहिए। उन्होंने कहा, 'कल जो सदन में हुआ, वह पहले कभी नहीं हुआ। मैं बहुत दुखी हूं।' उन्होंने कहा कि आधिकारियों की मेज और उसके आसपास का हिस्सा सदन के पवित्र गर्भ गृह की तरह है। इस मेज पर राज्यसभा के

इविवटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव करते हैं।

विकेता प्रमोटर समूह से संबंधित है वा नहीं

नामित स्टॉक एक्सचेंज का नाम

आवंटन पद्धति

ऑफर के खलने और बंद होने की तिथि

बिकी के लिए प्रस्तावित शेयरों की संख्या

बेचने के लिए चुन सकता है

विक्रेता की ओर से दलाल का नाम

12. ऑफर का वापस लेने या रद करने की शर्ते

कृते और सुषील कुमार गतिक एकपुएफ की ओर से

कृते और कैल्कॉम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की और से

(अधिकृत हरतामस्कर्ता)

विधिः 11 अयस्त, 2021

स्थानः नई दिल्ली

शेयरों की अधिकतम संख्या जिसे विक्रेता

कंपनी का नाम जिसके शेवर बेचे जाने का - कैल्कॉम विजन सिमिटेड

एक्सबेंज()) का नाम जहां ऑर्डर दिए जाएंगे | बीएसई लिमिटेड

प्रस्ताव है और कंपनी के आईएसआईएन का | आईएसआईएन - आईएनई216सी01010

विकेता का नाम

ऑफर फॉर सेल की सूवना

केंल्कों म विजन लिमिटेड ("सीवीएल" व "दि कंपनी") पंजीकृत कार्यातक सी-41, ठिकेन्स कॉलोची, नई दिल्ली - 110824, कोन नहः 0120-2569761; फेक्स नहः 0120-2569761;

सुशील कुमार मलिक एवयूएफ, श्रीमती शक्ति मलिक, मैसर्स कैल्कॉम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एवं

मैक्स बुबेंट इन्फ्रस्ट्रवक्त ब्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ("प्रोक्टर्स") द्वारा सारित 8,88,155 इविवटी जेयरों का ऑफर फॉर सेल

ऑफर फॉर सेल की लुबना सुशील कुमार मलिक एचबुएफ, श्रीमती शशि मलिक, मैसर्स कैल्कॉम इलेक्ट्रॉनिक्स

लिमिटेड एवं मैसर्स पुढेट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कैल्कॉन विजन लिमिटेड के प्रोमोटर्स को जारी की जा रही

हैं। ब्रोमोटर्स प्रतिमृति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1967 के नियम 19ए के ब्रावधानों के अनुपालन में कंपनी की प्रदत

इक्किटी शेयर पूंजी का 6.53 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करने वाले 6,88,155 (छड लाख कठासी हजार एक सौ प्रध्यन

सुत्तील कुमार मलिक एवव्हरक

मैसर्स कैल्कॉम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

मैसर्स पुढेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी के शेयर केवल बीएसई पर सुधीबद्ध हैं

गैर खदरा निवेशकों के लिए: गुरुवार, 12 अगस्त, 2021

सेबी ओएफएस परिपत्रों के अनुसरण में आबंटन मल्टीपर

क्लीवरिंग पाइस आधार पर मूल्य प्राथमिकता प्रक्रिया आधाः

6.88.155 (घट लाख अठासी हजार एक सी पव्यन) इनिवटी

शेयर कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 6.53 प्रतिश

6,88,155 (छड लाख अठाशी हजार एक सी पन्मन) इकिवटी

शेयर कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 6.53 प्रतिशर

एसएलसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड

रू. ३४/- (बीतीस रूपये गात्र)

(अधिकृत हस्तासरकर्ता)

खुदरा निवेशकों के लिए: शुक्रवार, 13 अगरत, 2021

श्रीमती शशि मनिक

हीं, विक्रेता कंपनी के प्रमोदर्स हैं

प्रतिनिधित्व करते हैं

प्रतिनिधित्व करते हैं।

(सदस्य कोतः ४७०)

ई-मेलः corp.compliancof



अधिकारी, अधिकारी और संवाददाता काम करते हैं।

भरे गले से नायड़ ने कहा कि इस स्थान की भी पवित्रता है। उन्होंने कहा कि मंदिर में जब श्रद्धाल जाते हैं

तो उन्हें एक निश्चित स्थान तक जाने की अनुमित होती है, उसके आगे नहीं। उन्होंने कहा कि सदन के बीचों बीच (आसन के समक्ष, मेज तक) आना इसकी पवित्रता को भंग करने जैसा है और पिछले कुछ सालों से ऐसा अक्सर हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कल सदन की पवित्रता भंग की गई, उससे मैं बेहद दुखी और आहत हूं। कुछ सदस्य सदन की आधिकारिक मेज पर चढ़ गए, कुछ मेज पर बैठ गए.... मेरे

राज्यसभा में अपनी बात कहते हुए भावुक हुए नायडू

पास अपनी पीड़ा जाहिर करने और कल की घटना की निंदा करने के लिए शब्द नहीं हैं।

विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा आसन के समक्ष आ कर हंगामा किए जाने का संदर्भ देते हुए सभापति ने कहा कि संसदीय परंपराओं को ताक पर रखने के लिए मानो होड सी मची हुई है। उन्होंने कहा कि कल जो अप्रिय घटना हुई, उस समय सदन में कृषि क्षेत्र की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा हो रही थी जो एक महत्वपूर्ण विषय है। नायडू ने हंगामे का संदर्भ देते हुए कहा कि सदस्य हंगामा कर-के. सरकार को अपनी मांग को लेकर बाध्य नहीं कर सकते। सभापति अपनी बात कह रहे थे, इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के चलते सभापति ने बैठक शुरू होने के करीब पांच मिनट बाद ही कार्यवाही दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को जमानत

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 11 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता विनय कुलकर्णी की जमानत मंजुर कर ली। कुलकर्णी को पिछले साल पांच नवंबर को भाजपा कार्यकर्ता योगेश गौडा की हत्या के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कलकर्णी की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें तीन दिन के भीतर संबंधित अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। जमानत के लिए शर्त तय करने का जिम्मा पीठ ने निचली अदालत को ही सौंप दिया।

अलबत्ता पूर्व मंत्री पर पीठ ने यह प्रतिबंध लगा दिया कि वह जांच को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करेंगे। किसी भी साक्ष्य से संपर्क नहीं करेंगे और न उन्हें प्रभावित करने का कोई प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं निचली अदालत का फैसला आने तक वे धारवाड़ जिले की सीमा में दाखिल नहीं होंगे और बंगलुरु में रहेंगे। हफ्ते में दो बार उन्हें सीबीआइ के सहायक पुलिस आयक्त के समक्ष अपनी उपस्थित

जमानत अर्जी के पक्ष में पैरवी वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने की। उन्होंने अदालत का ध्यान पुलिस और सीबीआइ के किए गए चालानों की विरोधाभासी बातों की तरफ दिलाया पुलिस ने जहां भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के पीछे संपत्ति विवाद को वजह बताया था वहीं सीबीआइ ने इसकी वजह राजनीतिक दुश्मनी बता दी।

दर्ज करानी होगी। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर जमानत निरस्त हो जाएगी। जमानत अर्जी के पक्ष में पैरवी वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने की। उन्होंने अदालत का ध्यान पुलिस और सीबीआइ के किए गए चालानों की विरोधाभासी बातों की तरफ दिलाया। पुलिस ने जहां भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के पीछे संपत्ति विवाद को वजह बताया था वहीं सीबीआइ ने इसकी वजह राजनीतिक दुश्मनी बता दी। एक ही मामले में तीन चालान किए गए हैं। अतिरिक्त महान्यायवादी एसवी राज् ने सीबीआइ की तरफ से पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया और कहा कि मामले की दोबारा जांच की बात गलत है।

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED CIN: L51909DL1984PLC019485

Regd. Office: 9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi- 110006 Tel. No.: 011-23517516-19, Email Id : cs@neccgroup.com, Website : www.neccgroup.com

Statement of un-audited Financial Results for the Quarter ended 30.06.2021 (Rs.in Lakhs) **Particulars** Corresponding 3 3 months **Previous Year** No. ended ended months ended in (31/03/2021) (30/06/2021)the previous year (30/06/2020) (un-audited) (audited) (un-audited) Total Income from Operations 7041.33 23058.64 3321.48 -323.14Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 95.90 175.59 Exceptional and/or Extraordinary items) -323.14 Net Profit / (Loss) for the period before tax 95.90 175.59 (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax 71.90 143.00 -323.14(after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period 71.90 143.00 -323.14 [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital (face value Rs 10/-5019.73 5019.73 5019.73 per share)

0.28 b) Diluted 0.14 -0.64Notes: The above is an extract of the detailed format of un-audited Financial Results filed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Results are available on the website of the Company at www.neccgroup.com and website of Stock

exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Earnings Per Share (of Rs 10/-each) (for continuing and discontinued operations)

3. The figures for the quarter ended 31st March, 2021 are the balancing figures between audited figures for the financial year 2020-21 and the reviewed year to date figures up to the third quarter of the financial year 2020-21. The above un-audited financial results for the quarter ended June 30, 2021 were reviewed by the Audit

Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their Meeting held on August 11, 2021. The figures of previous financial year were regrouped/rearranged where ever necessary.

For North Eastern Carrying Corporation Limited

4452.31

-0.64

www.railmadad.indian

Place: Delhi Date: 11.08.2021

मांग नोटिस चिपकाये गये मांग नोटिस के

सम्पत्ति नं0

09.08.2021

सांकेतिक कब्जा

नं0 3 07.08.2021

सांकेतिक

कब्जा

सांकेतिक कब्जा

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

27.04.2021 09.08.2021

कब्जा नोटिस अनुसार बकाया की तिथि एकम

1 एवं 2 12,05,80,111.09

ब्याज एवं अन्य

16,20,58,524.08

ब्याज एवं अन्य

Reserve excluding Revaluation

Reserve as per Balance Sheet of previous year

(Sunil Kumar Jain) Chairman & Managing Director DIN: 00010695

महत्वपूर्ण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर रेलवे ने निम्नलिखित पूर्णतः आरक्षित मेल / एक्सप्रेस विशेष रेलगाड़ियों को अनारक्षित मेल / एक्सप्रेस विशेष रेलगाड़ियों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, जो कि दिनांक 12.08.2021 से प्रभावी होगा। परिवर्तित रेलगाङ्गियाँ नीचे दिये हुए विवरणानुसार चलेंगी:—

स्पेशल रेलगाड़ी सं.	से	तक	फेरा	
04640	फिरोजपुर केंट	साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर (मोहाली)	-00-	
04639	साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर (मोहाली)	फिरोजपुर कॅंट	प्रतिदिन	
04488 फिरोजपुर केंट		केंट चण्डीगढ़ जं.		
04487	चण्डीगढ़ जं.	फिरोजपुर कैंट	प्रतिदिन	
04669 फिरोजपुर केंट		हनुमानगढ़ जं.	प्रतिदिन	
04670	हनुमानगढ़ जं.	फिरोजपुर कैंट	ZIVII 4 I	
04538	नंगल डैम	अमृतसर जं.		
04537	अमृतसर जं.	नंगल डैम	प्रतिदिन	
04489	अमृतसर जं.	पठानकोट जं.	प्रतिदिन	
04490	पठानकोट जं.	अमृतसर जं.	жинч	

रेलयात्रियों को सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त रेलगाड़ियों की विस्तृत समय-सारणी की जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in पर जायें अथवा NTES App देखें।

नोटः रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन आदि सहित कोविड-19 से संबंधित राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी नियमों और सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है।

रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139



ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 11 अगस्त। कांग्रेस ने अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इन चुनाव के लिए कांग्रेस ने 38

सदस्य वाली प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है। इसकी अगुआई उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। इस समिति में प्रमुख रुप से सलमान खुशींद, राजीव शुक्ला, पीएल पूनिया और राशिद अल्वी भी शामिल हैं।

इन चुनावों को लेकर ने लगातार सिक्रयता बढा दी है। कांग्रेस धरने प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। पार्टी का दावा है कि इस बार के चुनाव में पार्टी का जनाधार बढेगा क्योंकि उनके द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में लगातार आम जनता का समर्थन मिल रहा है। इससे पूर्व भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रखते हुई कई कमेटियों को मंजूरी दे चुकी है।

इस समिति में जिन उसमें पार्टी के अन्य कई बड़े चेहरे भी शामिल है। समिति के सदस्यों में आराधना मोना मिश्रा, मोहसिना किदवई, निर्मल खत्री, प्रमोद तिवारी, विवेक बंसल, प्रदीप जैन, प्रदीप माथुर, राजारामपाल, राकेश मिश्रा, राकेश सचान, बेगम नूर बानो समेत अन्य कई नए चेहरों को भी जगह दी गई है।

इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष समेत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के विभिन्न संगठनों के प्रमुख, राज्यों के संगठन के प्रमुखों समेत अन्य पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है। इससे पहले 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे।

www.readwhere.com